



**पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड**  
**कंपनी सचिवालय**

दिनांक:- 10.11.2020

सं.:1:05:126(3):1:सीएस

कार्यालय आदेश सं. सीएस/सं.07/आईटीसी/2020

**विषय: - ट्रेडिंग विंडो का खुलना**

**संदर्भ: दिनांक 24 सितंबर, 2020 का कार्यालय आदेश सं.सीएस/सं.06/आईटीसी/2020**

कंपनी सचिवालय यूनिट के दिनांक 24 सितंबर 2020 के परिपत्र द्वारा अधिसूचित अनुसार, "पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के विनियमन, मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग के लिए आचार संहिता एवं अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटन के लिए व्यवहार एवं प्रक्रिया संहिता" ('संहिता') की शर्तों के अनुसार, पीएफसी के इक्विटी शेयरों एवं सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों में व्यापार करने के लिए ट्रेडिंग विंडो दिनांक 30 सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणाम की घोषणा के पश्चात 1 अक्टूबर, 2020 से अड़तालिस (48) घंटे की समाप्ति तक बंद थी।

इस संबंध में, सूचित किया जाता है कि पीएफसी लिमिटेड के निदेशक मंडल की 406वीं बैठक बृहस्पतिवार, नवंबर 12, 2020 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य मामलों के साथ दिनांक 30 सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों (एकल एवं समेकित) को मंजूरी दी जाएगी।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सूचित किया जाता है कि पीएफसी की प्रतिभूतियों में व्यापार करने हेतु ट्रेडिंग विंडो शनिवार, 14 नवंबर, 2020 तक बंद रहेगी और 15 नवंबर, 2020 से पुनः खुलेगी। सभी नामित कार्मिकों और अन्य संबंधित व्यक्तियों से अनुरोध है कि उपर्युक्त अवधि के दौरान पीएफसी के इक्विटी शेयरों एवं सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों सहित कंपनी की प्रतिभूतियों में ट्रेड न करें।

**मनोहर बलवानी**

**मुख्य महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव और  
कोड हेतु अनुपालन अधिकारी**

वितरण-

सभी संबंधित व्यक्ति ("पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के विनियमन, मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग के लिए आचार संहिता एवं अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटन के लिए व्यवहार एवं प्रक्रिया संहिता" में यथापरिभाषित) और सहायक कंपनियों के निदेशक एवं कार्मिक।

1. कंपनी सचिव, पीएफसीसीएल
2. कंपनी सचिव, आरईसीएल

- इस परिपत्र को आरईसी में सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित करने के अनुरोध के साथ।